

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 176]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 11 मई 2015—वैशाख 21, शक 1937

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 11 मई 2015

क्र. डी-15-1-2014-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 72 की उपधारा (4) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा कृषि उपज मण्डी समिति केवलारी एवं कृषि उपज मण्डी समिति पलारी, जिला सिवनी में निर्वाचन द्वारा मंडी समिति के गठन के लंबित रहने की कालावधि तक के लिये निम्नानुसार भारसाधक समिति का गठन करती है:—

कृषि उपज मण्डी समिति केवलारी

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1. श्री देवीसिंह बघेल (नाम निर्दिष्ट)
पिता-श्री कंचल सिंह बघेल, निवासी मलारा | अध्यक्ष/कृषक प्रतिनिधि |
| 2. श्री मथुरा सिंह (पूर्व निर्वाचित) | कृषक प्रतिनिधि |
| 3. श्रीमती शिवरतिया (पूर्व निर्वाचित) | कृषक प्रतिनिधि |
| 4. श्रीमती सुमिताबाई (पूर्व निर्वाचित) | कृषक प्रतिनिधि |
| 5. श्री प्रहलाद सिंह उईके (पूर्व निर्वाचित) | कृषक प्रतिनिधि |
| 6. श्री चैनसिंह उईके (पूर्व निर्वाचित) | कृषक प्रतिनिधि |
| 7. श्री भोयाराम (पूर्व निर्वाचित) | कृषक प्रतिनिधि |
| 8. श्री महेश कुमार (पूर्व निर्वाचित) | कृषक प्रतिनिधि |
| 9. श्रीमती लीला (पूर्व निर्वाचित) | कृषक प्रतिनिधि |
| 10. श्री प्रमोद कुमार मोदी (पूर्व निर्वाचित) | व्यापारी प्रतिनिधि |
| 11. श्री जागेश्वर बिसेन (नाम निर्दिष्ट)
पिता-श्री इनकलाल बिसेन, निवासी भोरगोंदी | कृषक प्रतिनिधि |
| 12. राज्य की विधानसभा का एक सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित किया गया हो | (पदेन सदस्य) |

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 13. सहकारी विपणन सोसायटी का एक प्रतिनिधि. | (पदेन सदस्य) |
| 14. कृषि विभाग का एक अधिकारी. | (पदेन सदस्य) |
| 15. श्री राधेलाल जंघेला (नाम निर्दिष्ट)
पिता-श्री अंचल जंघेला, निवासी केवलारी. | तुलैया/हम्माल प्रतिनिधि |
| 16. जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष. | (पदेन सदस्य) |
| 17. जिला भूमि विकास बैंक का अध्यक्ष. | (पदेन सदस्य) |
| 18. ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत या जिला पंचायत का एक सदस्य. | (पदेन सदस्य) |

कृषि उपज मण्डी समिति पलारी

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. श्रीमती सरला डहेरिया (पूर्व निर्वाचित) | अध्यक्ष/कृषक प्रतिनिधि |
| 2. श्री दयाल बाबू (पूर्व निर्वाचित) | कृषक प्रतिनिधि |
| 3. श्री पोषण कुमार ठाकुर (नाम निर्दिष्ट)
पिता-श्री रेवाराम ठाकुर, निवासी मालहनवाड़ा. | कृषक प्रतिनिधि |
| 4. श्री तुलसीराम ठाकुर (नाम निर्दिष्ट)
पिता- श्री सीताराम ठाकुर, निवासी पिपरियाकला. | कृषक प्रतिनिधि |
| 5. श्री नत्थूलाल अग्रवाल (नाम निर्दिष्ट)
पिता-श्री गुलाबचंद अग्रवाल, निवासी खैरा. | कृषक प्रतिनिधि |
| 6. श्री प्रेमकुमार अमृते (नाम निर्दिष्ट)
पिता-श्री फूलचंद अमृते, निवासी लोपा. | कृषक प्रतिनिधि |
| 7. श्री ब्रजमोहन ठाकुर (नाम निर्दिष्ट)
पिता-श्री अम्मीलाल ठाकुर, निवासी रोशान. | कृषक प्रतिनिधि |
| 8. श्री जीवनलाल ठाकुर (नाम निर्दिष्ट)
पिता-श्री पुसूलाल ठाकुर, निवासी मैरा. | कृषक प्रतिनिधि |
| 9. श्रीमती प्रेमवती (नाम निर्दिष्ट)
पति-श्री मुल्लू, निवासी साठई. | कृषक प्रतिनिधि |
| 10. श्रीमती कुसुम बाई (नाम निर्दिष्ट)
पति-श्री नरेन्द्र पाल, निवासी मैरा. | कृषक प्रतिनिधि |
| 11. श्री विमल कुमार खेमका (नाम निर्दिष्ट)
पिता-श्री मालीराम खेमका, निवासी पलारी. | व्यापारी प्रतिनिधि |
| 12. राज्य की विधानसभा का एक सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित किया गया हो | (पदेन सदस्य) |
| 13. सहकारी विपणन सोसायटी का एक प्रतिनिधि. | (पदेन सदस्य) |
| 14. कृषि विभाग का एक अधिकारी. | (पदेन सदस्य) |
| 15. श्री प्रकाश यादव (पूर्व निर्वाचित) | तुलैया/हम्माल प्रतिनिधि |
| 16. जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष. | (पदेन सदस्य) |
| 17. जिला भूमि विकास बैंक का अध्यक्ष. | (पदेन सदस्य) |
| 18. ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत या जिला पंचायत का एक सदस्य. | (पदेन सदस्य). |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 11 मई 2015

क्र. डी-15-1-2014-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11 मई 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 11th May 2015

No. D-15-1-2014-XIV-3.—In exercise of the powers conferred under sub-section (4) of Section 72 of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Act, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby constitutes the following Committee-in-charge for Krishi Upaj Mandi Samiti, Kevlari and Krishi Upaj Mandi Samiti, Palari, District Seoni till constitution of the committee through election:—

Krishi Upaj Mandi Samiti, Kevlari

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Shri Devisingh Baghel (Nominated)
S/o Shri Kanchal Singh Baghel, Resident of Malara. | Chairman/Farmer Representative |
| 2. Shri Mathura Singh (previously elected) | Farmer Representative |
| 3. Smt. Shivratia (previously elected) | Farmer Representative |
| 4. Smt. Sumita Bai (previously elected) | Farmer Representative |
| 5. Shri Prahalad Singh Uyike (previously elected) | Farmer Representative |
| 6. Shri Chansingh Uyike (previously elected) | Farmer Representative |
| 7. Shri Bhoyaram (previously elected) | Farmer Representative |
| 8. Shri Mahesh Kumar (previously elected) | Farmer Representative |
| 9. Shri Leela (previously elected) | Farmer Representative |
| 10. Shri Pramod Kumar Modi (previously elected) | Traders Representative |
| 11. Shri Jageshwar Besan (Nominated)
S/o Shri Jhanaklal Besan, Resident of Bhorgondhi. | Farmer Representative |
| 12. A Member of Legislative Assembly of Madhya Pradesh who is elected from the district. | (Ex-officio Member) |
| 13. A representative from Marketing Society | (Ex-officio Member) |
| 14. An Officer from Farmer Welfare and Agriculture Development Department. | (Ex-officio Member) |
| 15. Shri Radhyalal Janghela (Nominated)
S/o Shri Anchal Janghela, Resident of Kevlari. | Weighman and Hammal |
| 16. Chairman of District Central Co-operative Bank | (Ex-officio Member) |

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 17. Chairman of District Land Development Bank | (Ex-officio Member) |
| 18. A Member from Village Panchayat or Janpad Panchayat or District Panchayat. | (Ex-officio Member) |

Krishi Upaj Mandi Samiti, Palari

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Smt. Sarla Daheriya (Previously elected) | Chairman/ Farmer Representative |
| 2. Shri Dayal Babu (Previously elected) | Farmer Representative |
| 3. Shri Poshan Kumar Thakur S/o Shri Rewaram Thakur (Nominated) Resident of Malhanwada. | Farmer Representative |
| 4. Shri. Tulsiram Thakur (Nominated) S/o Shri Sitaram Thakur Resident of Pipariakalan. | Farmer Representative |
| 5. Shri Nathulal Agrawal (Nominated) S/o Shri Gulabchand Agrawal Resident of Kheran | Farmer Representative |
| 6. Shri Premkumar Amrite (Nominated) S/o Shri Phoolchand Amrite Resident of Lopa. | Farmer Representative |
| 7. Shri Brijmohan Thakur (Nominated) S/o Shri Ammilal Thakur, Resident of Roshan. | Farmer Representative |
| 8. Shri Jeevanlal Thakur (Nominated) S/o Shri Pusulal Thakur, Resident of Mayra. | Farmer Representative |
| 9. Smt. Premvati (Nominated) S/o Shri Mullu, Resident of Sathi. | Farmer Representative |
| 10. Smt. Kusum Bai (Nominated) S/o Shri Narendra Pal, Resident of Mayra. | Farmer Representative |
| 11. Shri Vimal Kumar Khemuka (Nominated) S/o Shri Maliram Khemuka, Resident of Palari. | Traders Representative |
| 12. A Member of Legislative Assembly of (Nominated) Madhya Pradesh who is elected from the district. | (Ex-officio Member) |
| 13. A representative from Marketing Society | (Ex-officio Member) |
| 14. An Officer from Farmer Welfare and Agriculture Development Department. | (Ex-officio Member) |
| 15. Shri Prakash Yadav (Previously elected) | Weighman and Hammal |
| 16. Chairman of District Central Co-operative Bank | (Ex-officio Member) |
| 17. Chairman of District Land Development Bank | (Ex-officio Member) |
| 18. A Member from Village Panchayat or Janpad Panchayat or District Panchayat. | (Ex-officio Member) |

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.